



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग—II खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART—II Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 397]
No. 397]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 1979/आश्विन 6, 1901
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 1979/ASVINA 6, 1901

इस भाग में मिला पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1979

का० आ० 557 (अ).—निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (भारक्षण और आबंटन) अधिनियम, 1968 के पैरा 17 के अनुसूचन में और तारीख 25 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii) में का० आ० 40 (अ) के रूप में प्रकाशित और समय-समय पर यथासंशोधित अपनी तारीख 25 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं० 56/78 और तारीख 23 मई, 1979 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii) में का० आ० 300(अ) के रूप में प्रकाशित और समय-समय पर यथा संशोधित अपनी तारीख 23 मई, 1979 की अधिसूचना सं० 56/78(4) को अतिरिक्त करते हुए—

(क) सारणी 1 में राष्ट्रीय ध्वज तथा उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक;

(ख) सारणी 2 में राज्यीय ध्वज, वह राज्य अथवा वे राज्य जिनमें वे राज्यीय ध्वज हैं, तथा ऐसे राज्य अथवा राज्यों में उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक;

(ग) सारणी 3 में अमान्यता प्राप्त राजनैतिक राजनीतिक दल तथा वह राज्य या वे राज्य जिनमें वे कार्य करते हैं; तथा

(घ) सारणी 4 में प्रत्येक राज्य के लिए मुक्त प्रतीक विनिर्दिष्ट करता है।

सारणी-1

राष्ट्रीय ध्वज	आरक्षित प्रतीक
1	2
1. इंडियन नेशनल कांग्रेस	गाय और बछड़ा
2. इंडियन नेशनल कांग्रेस (इ)	हाथ
3. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	वाल और हंसिया
4. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	हथौड़ा, हंसिया और सितारा
5. जनता पार्टी	चक्र में हंसधर (चक्र हंसधर)
6. जनता पार्टी (मेकमूर)	खेत जोतता हुआ किसान

सारणी-2

राज्य का नाम	राज्यीय ध्वज का नाम	आरक्षित प्रतीक
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	जॉन्स ट्राइबल काउंसिल आफ आन्ध्र प्रदेश	फसल काटता हुआ किसान
हरियाणा	विशाल हरियाणा	जदीयमान सूर्य
जम्मू-कश्मीर	जम्मू-कश्मीर नेशनल काँग्रेस	हल
केरल	1. आल इंडिया मुस्लिम लीग	नाव
	2. केरल कांग्रेस	घोड़ा
	3. केरल कांग्रेस (पिल्लई ग्रुप)	फलों सहित नारियल का पेड़

1	2	3
	4. मुस्लिम लीग	सीढ़ी
	5. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा और बेलचा
महाराष्ट्र	पीपल्स एण्ड वर्कर्स पार्टी	गाड़ी
मणिपुर	1. कुकी नेशनल असोसिएशन	दो पत्तियां
	2. मणिपुर पीपल्स पार्टी	माइकिल
मेघालय	1. आल पार्टी हिल नीडर्स कॉफेस	फूल
	2. हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	शेर
	3. पब्लिक डिमांड्स इम्प्लीमेंटेशन कमेेशन	फावड़ा
नागालैण्ड	1. नेशनल कमेेशन आफ नागालैंड	नागा
	2. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	सुर्ग
पंजाब	शिरोमणि अकासी दल	तराजू
मिजिकम	1. मिजिकम कांग्रेस (भार)	उदीयमान सूर्य
	2. मिजिकम थियुलॉजिस्ट्स लीग	बेपचा
तमिलनाडु	1. आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	दो पत्तियां
	2. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	उदीयमान सूर्य
त्रिपुरा	त्रिपुरा उपजाति जुधा समिति	दो पत्तियां
पश्चिमी बंगाल	1. आल इंडिया फार्वर्ड ब्लाक	शेर
	2. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा और बेलचा
अरुणाचल प्रदेश	पीपल्स पार्टी आफ अरुणाचल	मिथुन
गोवा, दमण और दीव	महाराष्ट्रवादी गोमालक	शेर
मिजोरम	पीपल्स कॉफेस	तराजू
पांडिचेरी	1. आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	दो पत्तियां
	2. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	उदीयमान सूर्य

सारणी-3

अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल का नाम	वह राज्य/वे राज्य जिनमें वह वल कार्य करता है
1	2
1. अखिल भारतीय राम राज्य परिषद्	1. आन्ध्र प्रदेश, 2. बिहार, 3. गुजरात, 4. हरियाणा, 5. हिमाचल प्रदेश, 6. जम्मू-कश्मीर, 7. मध्य प्रदेश, 8. महाराष्ट्र, 9. उड़ीसा, 10. पंजाब, 11. राजस्थान, 12. उत्तर प्रदेश, 13. पश्चिमी बंगाल और 14. दिल्ली।
2. अखिल भारतीय सेवर पार्टी	पंजाब।
3. भारतीय सोशलिस्ट पार्टी	1. आन्ध्र प्रदेश, 2. बिहार, 3. गुजरात, 4. हिमाचल प्रदेश, 5. केरल, 6. मध्य प्रदेश, 7. महाराष्ट्र, 8. उड़ीसा, 9. राजस्थान, 10. उत्तर प्रदेश, 11. पश्चिमी बंगाल और 12. दिल्ली।
4. इतराखण्ड पार्टी	1. बिहार, 2. उड़ीसा, और 3. पश्चिमी बंगाल।
5. मुस्लिम मजलिस	उत्तर प्रदेश।
6. भारत की रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी	1. आसाम, 2. गुजरात, और 3. पश्चिमी बंगाल।
7. भारत की रिपब्लिकन पार्टी	1. बिहार, 2. हरियाणा, 3. महाराष्ट्र, 4. पंजाब, 5. तमिलनाडु, 6. उत्तर प्रदेश, 7. पश्चिमी बंगाल, 8. दिल्ली और 9. पांडिचेरी

1	2
8. भारत की रिपब्लिकन पार्टी (खोशगामे)	1. आन्ध्र प्रदेश, 2. गुजरात, 3. हरियाणा, 4. कर्नाटक, 5. केरल, 6. मध्य प्रदेश, 7. महाराष्ट्र, 8. पंजाब, 9. तमिलनाडु, 10. उत्तर प्रदेश और 11. दिल्ली।
9. सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर आफ इंडिया	1. आसाम, 2. बिहार, 3. हरियाणा, 4. केरल, 5. उड़ीसा, 6. उत्तर प्रदेश, 7. पश्चिमी बंगाल, और 8. दिल्ली।
10. शिव सेना	महाराष्ट्र
11. शोधित समाज दल (अखिल भारतीय)	1. बिहार, 2. मध्य प्रदेश, 3. उत्तर प्रदेश, और 4. पश्चिमी बंगाल।
12. सिक्किम प्रजातंत्र कांग्रेस	सिक्किम
13. त्रिपुरा स्टेट कांग्रेस फार डेमोक्रेसी	त्रिपुरा

सारणी-4

राज्य का नाम	मुक्त प्रतीक
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1. माइकिल 2. नाव 3. ऊँट 4. हाथी 5. मशाल 6. शेर 7. कलश 8. रेल का इंजन 9. उदीयमान सूर्य 10. तराजू 11. गौरैया 12. धूत के भीतर स्वास्तिक 13. चीता 14. ट्रैक्टर 15. दो पत्तियां
2. आसाम	1. माइकिल 2. नाव 3. बाल्टी 4. ऊँट 5. कार 6. हाथी 7. लालटेन 8. जग 9. शेर 10. कलश 11. रेल का इंजन 12. तराजू 13. फावड़ा 14. फावड़ा और बेलचा 15. गौरैया 16. चीता 17. दो पत्तियां 18. छाता

1	2	1
3. ब्रिहार	1. सिर पर टोकरी ले जाती हुई 2. साइकिल 3. नाव 4. तीर-कमान 5. बाल्टी 6. गाड़ी 7. चर्खा 8. कुर्सी 9. ऊंट 10. कार 11. अनाज बरसाना हुआ किसान 12. ड्रम 13. हाथी 14. मछली 15. घोड़ा और सवार 16. घोड़ा 17. सीढ़ी 18. शेर 19. कमल 20. ताला और चाबी 21. कलश 22. कबूतर 23. रेल का इंजन 24. उदीयमान सूर्य 25. तराजू 26. फावड़ा और बेलचा 27. वृत्त के भीतर स्वास्तिक 28. दो पत्तियां 29. छाता 30. स्त्री	लटेन र सीढ़ी कबूतर रेल इंजन 16. तराजू 17. फावड़ा और बेलचा 18. ट्रेक्टर 19. दो पत्तियां 1. साइकिल 2. नाव 3. तीर कमान 4. शेर 5. रेल का इंजन 6. उदीयमान सूर्य 7. तराजू 8. गौरैया 9. दो पत्तियां 1. कबूतरों का जोड़ा 2. साइकिल 3. नाव 4. कार 5. गाड़ी 6. ऊंट 7. कुर्सी 8. मशाल 9. घोड़ा और सवार 10. लालटेन 11. दवात और कलम 12. ताला और चाबी 13. उदीयमान सूर्य 14. रेल का इंजन 15. फावड़ा 16. पोत 17. दो पत्तियां 18. ट्रेक्टर 19. घड़ी 1. कबूतरों का जोड़ा 2. साइकिल 3. नाव 4. ऊंट 5. गाड़ी 6. कार 7. चर्खा 8. मुर्गा 9. हिरन 10. ड्रम 11. हाथी 12. फूल 13. घोड़ा 14. शेर 15. सीढ़ी 16. कलश 17. मोर
4. गुजरात	1. साइकिल 2. नाव 3. ऊंट 4. हाथी 5. मशाल 6. घोड़ा 7. शेर 8. कलश 9. रेल का इंजन 10. उदीयमान सूर्य 11. तराजू 12. गौरैया 13. ट्रेक्टर 14. दो पत्तियां	6. हिमाचल प्रदेश 7. जम्मू-कश्मीर
5. हरियाणा	1. साइकिल 2. नाव 3. तीर-कमान 4. ऊंट 5. गाड़ी 6. कुर्सी 7. हाथी 8. फूल 9. बकरी 10. घोड़ा और सवार	8. कर्नाटक

1	2	1	2
	18. रेल का इंजन		27. वृत्त के भीतर स्वास्तिक
	19. उदीयमान सूर्य		28. गोरैया
	20. तराजू		29. चश्मा
	21. फावड़ा		30. गिलाई की मशीन
	22. गोरैया		31. दो पत्तियां
	23. ट्रैक्टर		32. ट्रैक्टर
	24. दो पत्तियां		33. दो तलवार और एक ढाल
	25. चीता		34. छाता
	26. छाता	11. महाराष्ट्र	1. बायुयान
9. केरल	1. कबूतरों का जोड़ा		2. साइकिल
	2. साइकिल		3. नाव
	3. ऊंट		4. बाल्टी
	4. चर्खा		5. टोकरी में रखी सब्जी
	5. हिरन		6. ऊंट
	6. हाथी		7. फसल काटता हुआ किसान
	7. मशाल		8. फलों सहित नारियल का पेड़
	8. फूल		9. मुर्गा
	9. कमल		10. कार
	10. कलश		11. चर्खा
	11. मोर		12. कुर्सी
	12. रेल का इंजन		13. घनाज बरसाता हुआ किसान
	13. उदीयमान सूर्य		14. घंटा
	14. तराजू		15. ड्रम
	15. गोरैया		16. हिरन
	16. वृत्त के भीतर स्वास्तिक		17. हाथी
	17. फावड़ा		18. उड़ने के लिए तैयार गड़ड़
	18. दो पत्तियां		19. मछली
	19. चीता		20. मशाल
	20. छाता		21. बकरी
10. मध्य प्रदेश	1. साइकिल		22. घोड़ा
	2. तीर-कमान		23. लालटेन
	3. नाव		24. हस्त बालित पम्प
	4. ऊंट		25. दवात और कलम
	5. कार		26. जग
	6. कुर्सी		27. शेर
	7. गाड़ी		28. सीढ़ी
	8. घंटा		29. कमल
	9. ड्रम		30. ताला और चाबी
	10. हाथी		31. मग
	11. मछली		32. कलश
	12. मशाल		33. कबूतर
	13. फूल		34. मोर
	14. घोड़ा और सवार		35. रेल का इंजन
	15. हस्त बालित पम्प		36. उदीयमान सूर्य
	16. दवात और कलम		37. रेडियो
	17. जग		38. तराजू
	18. शेर		39. गोरैया
	19. ताला और चाबी		40. वृत्त के भीतर स्वास्तिक
	20. सीढ़ी		41. फावड़ा और बेलना
	21. कलश		42. चश्मा
	22. मोर		43. गिलाई की मशीन
	23. रेल का इंजन		44. दो पत्तियां
	24. उदीयमान सूर्य		45. दो तलवार और एक ढाल
	25. रेडियो		46. चीता
	26. फावड़ा और बेलना		47. ट्रैक्टर

1	2	1	2
	48. फसल काटने के पञ्चाब् लोटते दो किमान		7. हाथी
	49. छाता		8. मशाल
	50. स्त्री ।		9. घोड़ा और सवार
12. मणिपुर	1. ऊट		10. हस्त चालित पम्प
	2. हाथी		11. लालटेन
	3. उड़ने के लिए तत्पर गरुड़		12. शेर
	4. फूल		13. नागा और चाबो
	5. घोड़ा		14. हल
	6. शेर		15. कलश
	7. कलश		16. रेल का इंजन
	8. रेल का इंजन		17. उदीयमान सूर्य
	9. तराजू		18. दूत के भीतर स्वस्तिक
	10. फावड़ा		19. फावड़ा और बेजवा
	11. गोरैया		20. ट्रैक्टर
	12. छाता		21. दो पत्नियां
13. मेघालय	1. नाव	17. राजस्थान	22. छाता
	2. हाथी		1. साइकिल
	3. ड्रम		2. नाव
	4. लालटेन		3. ऊट
	5. सीढ़ी		4. मुर्गा
	6. कलश		5. कार
	7. उदीयमान सूर्य		6. फसल काटता हुआ किमान
	8. तराजू		7. हिरन
	9. गोरैया		8. हाथी
	10. मिलाई की मशीन		9. मशाल
	11. दो पत्नियां		10. घोड़ा
14. नागालैण्ड	1. कबूतरों का जोड़ा		11. शेर
	2. तीर-कमान		12. सीढ़ी
	3. हाथी		13. कलश
	4. मशाल		14. उदीयमान सूर्य
	5. हार्नेबिल		15. रेल का इंजन
	6. लंग ड्रम		16. तराजू
	7. भग		17. गोरैया
	8. चीता ।		18. दो पत्नियां
15. उड़ीसा	1. वायुयान		19. ट्रैक्टर
	2. साइकिल	18. सिक्किम	20. छाता
	3. नाव		1. साइकिल
	4. तीर-कमान		2. तीर-कमान
	5. ऊट		3. घंटा
	6. बाघ		4. कार
	7. ड्रम		5. ड्रम
	8. हाथी		6. हिरन
	9. घोड़ा		7. हाथी
	10. शेर		8. फूल
	11. कलश		9. बकरी
	12. रेल का इंजन		10. घोड़ा
	13. दो पत्नियां		11. लालटेन
16. पंजाब	1. साइकिल		12. कलश
	2. तीर कमान		13. तराजू
	3. नाव		14. चीता
	4. ऊट		15. दो पत्नियां
	5. ड्रम		16. छाता
	6. उड़ने के लिए तत्पर गरुड़	19. तमिलनाडु	1. वायुयान
			2. साइकिल
			3. नाव

1	2	1	2
	4. ऊँट		
	5. कार	22. पश्चिमी बंगाल	1. सिर पर टोकरा ले जाती हुई स्त्री
	6. घड़ा		2. कबूतरों की जोड़ी
	7. मुर्गा		3. साइकिल
	8. फलों सहित नारियल का पेड़		4. तीर-कमान
	9. शार्पा		5. ऊँट
	10. फूल		6. कुम
	11. मछली		7. उड़ने के लिए तैयार गरुड़
	12. घोड़ा		8. हाथी
	13. शेर		9. मछली
	14. कलश		10. मशाल
	15. रेल का इंजन		11. हस्त चालित पम्प
	16. तराजू		12. घोड़ा और सवार
	17. फावड़ा		13. सीढ़ी
	18. गोश्या		14. कलश
	19. वृत्त के भीतर स्वास्तिक		15. रेडियां
	20. पांश		16. रेल का इंजन
20. त्रिपुरा	1. साइकिल		17. उदीयमान सूर्य
	2. मशाल		18. तराजू
	3. घोड़ा		19. सिलसई की मशीन
	4. शेर		20. पांश
	5. कलश		21. वृत्त के भीतर स्वास्तिक
	6. उदीयमान सूर्य		22. ट्रैक्टर
	7. तराजू		23. दो पत्तियां
	8. फावड़ा	23. मण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1. साइकिल
	9. गोश्या		2. नाव
	10. वृत्त के भीतर स्वास्तिक		3. उदीयमान सूर्य
	11. फावड़ा और बेलना		4. तराजू
	12. फसल काटने के पश्चात् लौटने दो किसान		5. दो पत्तियां
	13. शीता	24. अरुणाचल प्रदेश	1. वायुयान
21. उत्तर प्रदेश	1. वायुयान		2. सिर पर टोकरा ले जाती हुई स्त्री
	2. साइकिल		3. नाव
	3. नाव		4. तीर-कमान
	4. तीर-कमान		5. बास्टी
	5. ऊँट		6. हाथी
	6. कार		7. मछली
	7. बाथ		8. मशाल
	8. हाथी		9. हार्नेबिल
	9. मछली		10. घोड़ा
	10. मशाल		11. लालटेन
	11. हस्त चालित पम्प		12. घोड़ा और सवार
	12. घोड़ा और सवार		13. कलश
	13. सीढ़ी		14. तराजू
	14. शेर		15. फावड़ा
	15. कलश		16. शीता
	16. रेल का इंजन		17. दो पत्तियां
	17. उदीयमान सूर्य		18. दो तलवार और एक डाल
	18. तराजू		19. छाता
	19. सिलसई की मशीन		
	20. गोश्या	25. चण्डीगढ़	1. साइकिल
	21. वृत्त के भीतर स्वास्तिक		2. नाव
	22. ट्रैक्टर		3. तीर-कमान
	23. दो पत्तियां		4. ऊँट

1	2	1	2
	5. उड़ने के लिए सत्पर गरुड़		17. गोरैया
	6. हाथी		18. दो पत्तियां
	7. मशाल		19. चीना
	8. फूल		20. छाता
	9. घोड़ा	29. लक्ष्मी	1. साइकिल
	10. शेर		2. नाव
	11. रेल का इंजन		3. ऊंट
	12. उदीयमान सूर्य		4. हाथी
	13. तराजू		5. घोड़ा
	14. फावड़ा		6. तराजू
	15. वृत्त के भीतर स्थापित		7. फावड़ा
	16. ट्रैक्टर		8. दो पत्तियां
	17. दो पत्तियां	30. मिश्रित	1. साइकिल
26. दादरा और नागर हवेली	1. साइकिल		2. नाव
	2. हाथी		3. ऊंट
	3. बकरी		4. उड़ने के लिए सत्पर गरुड़
	4. घोड़ा		5. हाथी
	5. तराजू		6. मछली
	6. दो पत्तियां		7. मशाल
			8. शेर
			9. कलश
27. दिल्ली	1. वायुयान		10. रेल का इंजन
	2. साइकिल		11. उदीयमान सूर्य
	3. नाव		12. फावड़ा
	4. तीर-कमान		13. फावड़ा और खेलचा
	5. ऊंट		14. गोरैया
	6. हाथी		15. दो पत्तियां
	7. मशाल		16. चीना
	8. फूल		17. छाता
	9. घोड़ा और सवार		
	10. सीढ़ी	31. पांडिचेरी	1. साइकिल
	11. शेर		2. घोड़ा और सवार
	12. कलश		3. सीढ़ी
	13. उदीयमान सूर्य		4. शेर
	14. रेल का इंजन		5. रेल का इंजन
	15. तराजू		6. तराजू
	16. दो पत्तियां		7. फावड़ा
	17. ट्रैक्टर		8. गोरैया
	18. दो तलवार और एक ढाल		
28. गोवा वसंत और दीव	1. साइकिल		
	2. नाव		
	3. ऊंट		
	4. मुर्गा		
	5. कार		
	6. हाथी		
	7. मछली		
	8. फूल		
	9. घोड़ा		
	10. सीढ़ी		
	11. कलश		
	12. शेर		
	13. रेल का इंजन		
	14. उदीयमान सूर्य		
	15. तराजू		
	16. फावड़ा		

[सं० 56/79.]

आदेश से,
के० गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 28th September, 1979

NOTIFICATION

S.O. 557(E).—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its notification No. 56/78 dated 25 January, 1978 published as S. O. 40 (E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii) dated 25 January, 1978 and notification No. 56/79(4) dated 23 May, 1979 published as S. O. 300(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii) dated 23 May, 1979 and as amended from time to time, the Election Commission hereby specified—

(a) the National Parties and Symbols the respectively reserved for them in Table I ;

- (b) the State Parties, the State or States in which they are State Parties and the symbols respectively reserved for them in such State or States in Table 2;
- (c) the unrecognised registered political parties, and the State or States in which they function in Table 3; and
- (d) the free symbols for each state in Table 4.

TABLE 1

National Parties	Symbols Reserved
1	2
1. Indian National Congress	Calf and Cow
2. Indian National Congress (I)	Hand
3. Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle
4. Communist Party of India (Marxist)	Hammer, Sickle and Star
5. Janata Party	Haldhar within wheel (Chakra Haldhar)
6. Janata Party (Secular)	Farmer Ploughing the Field (Khet Jotata Jua Kisan)

TABLE 2

Name of the State	Name of the State Party	Symbol Reserved
1	2	3
Assam	Plains Tribals Council of Assam	Cultivator cutting crop.
Haryana	Vishal Haryana	Rising Sun
Jammu & Kashmir	Jammu and Kashmir National Conference	Plough
Kerala	1. All India Muslim League 2. Kerala Congress 3. Kerala Congress (Pillai Group) 4. Muslim League 5. Revolutionary Socialist Party	Boat Horse Coconut Tree bearing Fruits. Ladder Spade and Stoker
Maharashtra	Peasant's and Workers' Party	Cart
Manipur	1. Kuki National Assembly 2. Manipur People's Party	Two leaves Bicycle
Meghalaya	1. All Party Hill Leaders' Conference 2. Hill State People's Democratic Party 3. Public Demands Implementation Convention	Flower Lion Spade
Nagaland	1. National Convention of Nagaland 2. United Democratic Front	Naga Cock
Punjab	Shiromani Akali dal	Scales
Sikkim	1. Sikkim Congress (R) 2. Sikkim Scheduled Castes League	Rising Sun Chepcha

1	2	3
Tamil Nadu	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 2. Dravida Munnetra Kazhagam	Two Leaves Rising Sun
Tripura	Tripura Upajati Juba Samiti	Two Leaves
West Bengal	1. All India Forward Block 2. Revolutionary Socialist Party	Lion Spade and Stoker
Arunachal Pradesh	People's Party of Arunachal	Mithun
Goa, Daman and Diu	Maharashtrawadi Gomantak	Lion
Mizoram	People's Conference	Scales
Pondicherry	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 2. Dravida Munnetra Kazhagam	Two Leaves Rising Sun

TABLE 3

Name of the unrecognised registered political party	State/States in which it functions
1	2
1. Akhil Bharatiya Ram Raja Parishad	1. Andhra Pradesh, 2. Bihar 3. Gujarat 4. Haryana 5. Himachal Pradesh 6. Jammu and Kashmir 7. Madhya Pradesh 8. Maharashtra 9. Orissa 10. Punjab 11. Rajasthan 12. Uttar Pradesh 13. West Bengal and 14. Delhi
2. All India Labour Party	Punjab
3. Bharatiya Socialist Party	1. Andhra Pradesh 2. Bihar 3. Gujarat 4. Himachal Pradesh 5. Kerala 6. Madhya Pradesh 7. Maharashtra 8. Orissa 9. Rajasthan 10. Uttar Pradesh 11. West Bengal and 12. Delhi
4. Jharkhand Party	1. Bihar 2. Orissa and 3. West Bengal
5. Muslim Majlis	Uttar Pradesh
6. Revolutionary Communist Party of India	1. Assam 2. Gujarat and 3. West Bengal

1	2	1	2
7. Republican Party of India	1. Bihar 2. Haryana 3. Maharashtra 4. Punjab 5. Tamil Nadu 6. Uttar Pradesh 7. West Bengal 8. Delhi and 9. Pondicherry		8. Jug 9. Lion 10. Pot 11. Railway Engine 12. Scales 13. Spade 14. Spade and Stoker 15. Sparrow 16. Tiger 17. Two Leaves 18. Umbrella
8. Republican Party of India (Khobragade)	1. Andhra Pradesh 2. Gujarat 3. Haryana 4. Karnataka 5. Kerala 6. Madhya Pradesh 7. Maharashtra 8. Punjab 9. Tamil Nadu 10. Uttar Pradesh and 11. Delhi.	3. Bihar	1. A Women carrying basket on her head 2. Bicycle 3. Boat 4. Bow and Arrow 5. Bucket 6. Cart 7. Charkha 8. Chair 9. Camel 10. Car 11. Cultivator winnowing grain 12. Drum 13. Elephant 14. Fish 15. Horse and Rider 16. Horse 17. Ladder 18. Lion 19. Lotus 20. Lock and Key 21. Pot 22. Pigeon 23. Railway Engine 24. Rising sun 25. Scales 26. Spade and Stoker 27. Swastik within a circle 28. Two Leaves 29. Umbrella 30. Women
9. Socialist Unity Centre of India	1. Assam 2. Bihar 3. Haryana 4. Kerala 5. Orissa 6. Uttar Pradesh 7. West Bengal and 8. Delhi		
10. Shiva Sona	Maharashtra		
11. Shoshit Samaj Dal (Akhil Bharatiya)	1. Bihar 2. Madhya Pradesh 3. Uttar Pradesh and 4. West Bengal		
12. Sikkim Prajatantra Congress	Sikkim		
13. Tripura State Congress for Democracy	Tripura		

TABLE 4

Name of State	Free Symbols	
1	2	
1. Andhra Pradesh	1. Bicycle 2. Boat 3. Camel 4. Elephant 5. Flaming Torch 6. Lion 7. Pot 8. Railway Engine 9. Rising Sun 10. Scales 11. Sparrow 12. Swastik within a circle 13. Tiger 14. Tractor 15. Two Leaves	4. Gujarat
2. Assam	1. Bicycle 2. Boat 3. Bucket 4. Camel 5. Car 6. Elephant 7. Hurricane Lamp	5. Haryana

1	2	1	2
5. Haryana (Contd.)	10. Horse and Rider 11. Hurricane Lamp 12. Lion 13. Ladder 14. Pigeon 15. Railway Engine 16. Scales 17. Spade and Stoker 18. Tractor 19. Two Leaves	9. Kerala	1. A pair of Pigeons 2. Bicycle 3. Camel 4. Charkha 5. Deer 6. Elephant 7. Flaming Torch 8. Flower 9. Lotus 10. Pot 11. Peacock 12. Railway Engine 13. Rising Sun 14. Scales 15. Sparrow 16. Swastik within a circle 17. Spade 18. Two Leaves 19. Tiger 20. Umbrella
6. Himachal Pradesh	1. Bicycle 2. Boat 3. Bow and Arrow 4. Lion 5. Railway Engine 6. Rising Sun 7. Scales 8. Sparrow 9. Two Leaves	10. Madhya Pradesh	1. Bicycle 2. Bow and Arrow 3. Boat 4. Camel 5. Car 6. Chair 7. Cart 8. Clock 9. Drum 10. Elephant 11. Fish 12. Flaming Torch 13. Flower 14. Horse and Rider 15. Hand Pump 16. Ink Pot and Pen 17. Jug 18. Lion 19. Lock and Key 20. Ladder 21. Pot 22. Peacock 23. Railway Engine 24. Rising Sun 25. Radio 26. Spade and Stoker 27. Swastik within a circle 28. Sparrow 29. Spectacles 30. Sewing Machine 31. Two Leaves 32. Tractor 33. Two Swords and a shield 34. Umbrella
7. Jammu & Kashmir	1. A pair of Pigeons 2. Bicycle 3. Boat 4. Car 5. Cart 6. Camel 7. Chair 8. Flaming Torch 9. Horse and Rider 10. Hurricane Lamp 11. Ink Pot and Pen 12. Lock and Key 13. Rising Sun 14. Railway Engine 15. Spade 16. Ship 17. Two Leaves 18. Tractor 19. Watch	11. Maharashtra	1. Aeroplane 2. Bicycle 3. Boat 4. Bucket 5. Basket containing vegetables 6. Camel 7. Cultivator cutting crop 8. Coconut tree bearing fruits 9. Cock
8. Karnataka	1. A pair of Pigeons 2. Bicycle 3. Boat 4. Camel 5. Cart 6. Car 7. Charkha 8. Cock 9. Deer 10. Drum 11. Elephant 12. Flower 13. Horse 14. Lion 15. Ladder 16. Pot 17. Peacock 18. Railway Engine 19. Rising Sun 20. Scales 21. Spade 22. Sparrow 23. Tractor 24. Two Leaves 25. Tiger 26. Umbrella		

1	2	1	2
11 Maharashtra (Contd.)	10. Car 11. Charkha 12. Chair 13. Cultivator winnowing grain 14. Clock 15. Drum 16. Deer 17. Elephant 18. Eagle about to fly 19. Fish 20. Flaming Torch 21. Goat 22. Horse 23. Hurricane Lamp 24. Hand Pump 25. Ink Pot and Pen 26. Jug 27. Lion 28. Ladder 29. Lotus 30. Lock and Key 31. Mug 32. Pot 33. Pigeon 34. Peacock 35. Railway Engine 36. Rising sun 37. Radio 38. Scales 39. Sparrow 40. Swastik within a circle 41. Spade and Stoker 42. Spectacles 43. Sewing Machine 44. Two Leaves 45. Two Swords and a shield 46. Tiger 47. Tractor 48. Two cultivators returning aftercutting crop 49. Umbrella 50. Woman	14. Nagaland	1. A pair of Pigeons 2. Bow and Arrow 3. Elephant 4. Flaming Torch 5. Hornbill 6. Log Drum 7. Mug 8. Tiger
		15. Orissa	1. Aeroplane 2. Bicycle 3. Boat 4. Bow and Arrow 5. Camel 6. Dam 7. Drum 8. Elephant 9. Horse 10. Lion 11. Pot 12. Railway Engine 13. Two Leaves
		16. Punjab	1. Bicycle 2. Bow and Arrow 3. Boat 4. Camel 5. Drum 6. Eagle about to fly 7. Elephant 8. Flaming Torch 9. Horse and Rider 10. Hand Pump 11. Hurricane Lamp 12. Lion 13. Lock and Key 14. Plough 15. Pot 16. Railway Engine 17. Rising Sun 18. Swastik, within a circle 19. Spade and Stoker 20. Tractor 21. Two Leaves 22. Umbrella
12. Manipur	1. Camel 2. Elephant 3. Eagle about to fly 4. Flower 5. Horse 6. Lion 7. Pot 8. Railway Engine 9. Scales 10. Spade 11. Sparrow 12. Umbrella	17. Rajasthan	1. Bicycle 2. Boat 3. Camel 4. Cock 5. Car 6. Cultivator cutting crop 7. Deer 8. Elephant 9. Flaming Torch 10. Horse 11. Lion 12. Ladder 13. Pot 14. Rising Sun 15. Railway Engine 16. Scales 17. Sparrow 18. Two Leaves 19. Tractor 20. Umbrella
13. Meghalaya	1. Boat 2. Dao 3. Drum 4. Hurricane Lamp 5. Ladder 6. Pot 7. Rising Sun 8. Scales 9. Sparrow 10. Sewing Machine 11. Two Leaves	18. Sikkim	1. Bicycle 2. Bow and Arrow 3. Clock

1	2	1	2
18. Sikkim (Contd.)	4. Car 5. Drum 6. Deer 7. Elephant 8. Flower 9. Goat 10. Horse 11. Hurricane Lamp 12. Pot 13. Scales 14. Tiger 15. Two Leaves 16. Umbrella	21. Uttar Pradesh (Contd.)	19. Sewing Machine 20. Sparrow 21. Swastik with in a circle 22. Tractor 23. Two Leaves
19. Tamil Nadu	1. Aeroplane 2. Bicycle 3. Boat 4. Camel 5. Car 6. Clock 7. Cock 8. Coconut tree bearing fruits 9. Elephant 10. Flower 11. Fish 12. Horse 13. Lion 14. Pot 15. Railway Engine 16. Scales 17. Spade 18. Sparrow 19. Swastik within a circle 20. Ship	22. West Bengal	1. A women carrying basket on her head 2. A pair of Pigeons 3. Bicycle 4. Dow and Arrow 5. Camel 6. Drum 7. Eagle about to fly 8. Elephant 9. Fish 10. Flaming Torch 11. Hand Pump 12. Horse and Rider 13. Ladder 14. Pot 15. Radio 16. Railway Engine 17. Rising Sun 18. Scales 19. Sewing Machines 20. Ship 21. Swastik within a circle 22. Tractor 23. Two Leaves
20. Tripura	1. Bicycle 2. Flaming Torch 3. Horse 4. Lion 5. Pot 6. Rising Sun 7. Scales 8. Spade 9. Sparrow 10. Swastik within a circle 11. Spade and stoker 12. Two cultivators returning after cutting crop 13. Tiger	23. Andaman & Nicobar Islands	1. Bicycle 2. Boat 3. Rising Sun 4. Scales 5. Two Leaves
21. Uttar Pradesh	1. Aeroplane 2. Bicycle 3. Boat 4. Bow and Arrow 5. Camel 6. Car 7. Dam 8. Elephant 9. Fish 10. Flaming Torch 11. Hand Pump 12. Horse and Rider 13. Ladder 14. Lion 15. Pot 16. Railway Engine 17. Rising Sun 18. Scales	24. Arunachal Pradesh	1. Aeroplane 2. A women carrying basket on her head 3. Boat 4. Bow and Arrow 5. Bucket 6. Elephant 7. Fish 8. Flaming Torch 9. Hornbill 10. Horse 11. Hurricane Lamp 12. Ink Pot and Pen 13. Pot 14. Scales 15. Spade 16. Tiger 17. Two Leaves 18. Two swords and a shield 19. Umbrella
		25. Chandigarh	1. Bicycle 2. Boat 3. Bow and Arrow 4. Camel 5. Eagle about to fly 6. Elephant 7. Flaming Torch 8. Flower 9. Horse 10. Lion 11. Railway Engine 12. Rising Sun

1	2	1	2
	13. Scales 14. Spade 15. Swastik within a circle 16. Tractor 17. Two Leaves		17. Sparrow 18. Two Leaves 19. Tiger 20. Umbrella
26. Dadra and Nagar Haveli	1. Bicycle 2. Elephant 3. Goat 4. Horse 5. Scales 6. Two Leaves	29. Lakshadweep	1. Bicycle 2. Boat 3. Camel 4. Elephant 5. Horse 6. Scales 7. Spade 8. Two Leaves
27. Delhi	1. Aeroplane 2. Bicycle 3. Boat 4. Bow and Arrow 5. Camel 6. Elephant 7. Flaming Torch 8. Flower 9. Horse and Rider 10. Ladder 11. Lion 12. Pot 13. Rising Sun 14. Railway Engine 15. Scales 16. Two Leaves 17. Tractor 18. Two swords and a shield	30. Mizoram	1. Bicycle 2. Boat 3. Camel 4. Eagle about to fly 5. Elephant 6. Fish 7. Flaming Torch 8. Lotion 9. Pot 10. Railway Engine 11. Rising Sun 12. Spade 13. Spade and Stoker 14. Sparrow 15. Two Leaves 16. Tiger 17. Umbrella
28. Goa, Daman and Diu	1. Bicycle 2. Boat 3. Camel 4. Cock 5. Car 6. Elephant 7. Fish 8. Flower 9. Horse 10. Ladder 11. Pot 12. Peacock 13. Railway Engine 14. Rising Sun 15. Scales 16. Spade	31. Pondicherry	1. Bicycle 2. Horse and Rider 3. Ladder 4. Lion 5. Railway Engine 6. Scales 7. Spade 8. Sparrow

[No. 56/79]

By Order,

K.GANESHAN, Secy.
Election Commission of India.

